



# नगर पालिक निगम भिलाई



मासिक पत्रिका  
नवम्बर 2019



नगर पालिक निगम भिलाई





श्री देवेन्द्र यादव  
महापौर

## संदेश

शहर में निवासरत सभी नागरिकों को शुभकामना, मैं अपनी पूरी क्षमता व लगन के साथ प्रयासरत हूं कि अंतिम व्यक्ति तक मूलभूत सुविधा पहुंचे। हम अपने इस लौह नगर को स्वच्छता, पानी, बिजली, सड़क, व्यवस्थित बाजार, पार्क, उद्यान, खेल-कूद, शिक्षा, आपसी प्रेम भाईचारा, सांस्कृतिक महोत्सव, आदि सभी क्षेत्रों में अग्रणी बनायेंगे। हम सब लोग मिलकर ही अपने शहर को स्वच्छ भिलाई सुन्दर भिलाई व स्वस्थ भिलाई बना सकते हैं।

श्री देवेन्द्र यादव  
महापौर  
नगर पालिक निगम  
भिलाई



नगर पालिक निगम भिलाई



## महापौर एवं भिलाई नगर विधायक देवेन्द्र यादव ने अंडा चौक स्थित कार्यालय में लोगों की सुनी समस्याएं

भिलाईनगर/ निगम क्षेत्र के वार्ड वासियों की समस्याओं के निराकरण के लिए अंडा चौक में महापौर एवं भिलाई नगर विधायक देवेन्द्र यादव ने लोगों की समस्याएं सुनी! श्री यादव ने अंडा चौक स्थित कार्यालय में पहुंचकर वार्ड वासियों की विभिन्न समस्याओं से रूबरू होकर उसके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किए! प्रायः आर्थिक सहायता, नल कनेक्शन, अवैध कब्जा, आवास, राशन कार्ड, स्वास्थ्य गत समस्या, निर्माण से संबंधित कार्य, पट्टा से संबंधित तथा पेंशन आदि से संबंधित प्रकरण इसमें सम्मिलित है! छावनी में सतनाम भवन के लिए लगभग तीन लाख की राशि महापौर श्री यादव ने शासन स्तर पर पहल करते हुए स्वीकृत कराने पर समाज के लोगों ने श्री यादव से मिलकर उनका आभार व्यक्त किया! आर्थिक सहायता के प्राप्त हुए आवेदन में से त्वरित कार्यवाही करते हुए एक बुजुर्ग महिला को तत्काल महापौर ने आर्थिक सहायता राशि प्रदान की! आज महापौर के जनदर्शन में अलग-अलग समस्याओं को लेकर 45 आवेदन प्राप्त हुए निगम स्तर के कार्यों के निराकरण के लिए श्री यादव ने अधिकारियों को निर्देशित किया है तथा अन्य कार्यों के लिए स्वयं महापौर एवं भिलाई नगर विधायक श्री देवेन्द्र यादव प्रयासरत है!



नगर पालिक निगम भिलाई



## बीपीएल राशन कार्ड का वितरण कार्य है जारी, आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने वितरण कार्य में प्रगति लाने के लिए निर्देश

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत समस्त जोन क्षेत्रों के वार्ड में चयनित स्थलों के माध्यम से बीपीएल राशन कार्ड का वितरण कार्य किया जा रहा है! आयुक्त श्री रघुवंशी ने समस्त जोन क्षेत्र के राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर वितरण कार्य की प्रगति की जानकारी प्राप्त की तथा वितरण कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए! नोडल अधिकारी टीपी लहरे ने बताया कि जिन स्थलों पर पहले शिविर लगाकर राशन कार्ड के लिए आवेदन लिए गए थे उन्हीं स्थलों पर राशन कार्ड का वितरण किया जा रहा है राशन कार्ड का कार्य देख रहे सुरेश देवांगन ने बताया कि नेहरू नगर जोन क्रमांक 1 में 8436 वैशाली नगर जोन क्रमांक 2 में 8462, मदर टैरेसा नगर जोन क्रमांक 3 में 8807, रिसाली जोन क्रमांक 6 में 7116 इस प्रकार कुल 47116 नवीनीकृत राशन कार्ड का वितरण किया जा चुका है! राशन कार्ड प्राप्त के लिए संबंधित वार्ड क्षेत्र के राशन कार्डधारी इन स्थलों पर संपर्क कर अपना राशन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं सेक्टर 3 शिव मंदिर वार्ड 46, शासकीय प्राथमिक पूर्व माध्यमिक शाला सेक्टर 7 भिलाई वार्ड 65 एवं 66, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला हॉस्पिटल सेक्टर सेक्टर 9 वार्ड 68, मंगल भवन इंडेरा वार्ड 40 एवं 41, सांस्कृतिक भवन नेवई वार्ड 42, इंदिरा बैंक भवन स्टेशन मरोदा वार्ड 43, कल्याणी मंदिर दुर्गा मंच वार्ड 44 एवं 45, सांस्कृतिक भवन रिसाली वार्ड 58,59,60 एवं 61, सामुदायिक भवन रूआबांधा वार्ड 62 में कार्यालयीन समय पर राशन कार्ड वितरण का कार्य किया जा रहा है। राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए पुराना राशन कार्ड लाना अनिवार्य है!



नगर पालिक निगम भिलाई



## निगम भिलाई की टीम जुटी स्वच्छता अभियान में, जोन आयुक्त सहित अधिकारी/ कर्मचारी कर रहे हैं स्थलों का निरीक्षण

भिलाईनगर/ स्वच्छता को लेकर निगम कार्यालय के सभागार में महत्वपूर्ण बैठक हुई थी जिसमें प्रभारी आयुक्त अशोक द्विवेदी ने समस्त जोन आयुक्त, कार्यपालन अभियंता, स्वच्छता निरीक्षक, सुपरवाइजर की बैठक लेकर निगम क्षेत्र अंतर्गत आने वाले स्थलों, सड़क किनारे के स्थलों कि निरंतर सफाई कराने के निर्देश दिए थे तथा जोन आयुक्तों को प्रतिदिन क्षेत्र भ्रमण कर सफाई व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कहा था! इस कार्य के लिए जोन की टीम जीवीपी पॉइंट, डोर टू डोर कचरा संग्रहण, व्यवसायिक एवं बाजार वाले क्षेत्रों में रात्रि कालीन सफाई व्यवस्था, निर्माण एवं विध्वंस से निकलने वाले कचरे निपटान, सामुदायिक शौचालय एवं पब्लिक शौचालय में आवश्यक व्यवस्था, व्यवसायिक क्षेत्रों में सुबह एवं शाम को सफाई, आवासीय क्षेत्रों की सफाई, कचरा संग्रहण परिवहन एवं निपटान, चौक चौराहों एवं सड़क किनारे की झाड़ी कटिंग, नालियों की सफाई, स्वच्छता के कार्यों में लगे हुए कर्मचारियों की उपस्थिति, शौचालयों में एग्जास्ट फैन, वाशबेसिन, फीडबैक मशीन, खिड़की, दरवाजे, पानी की व्यवस्था, सफाई एजेंसी द्वारा प्रदान किए जाने वाले संसाधन, एसएलआरएम सेंटर की व्यवस्था, मार्केट क्षेत्र की रात्रि कालीन सफाई आदि का जायजा लेकर कर्मचारियों को दिशा-निर्देश प्रदान कर रहे हैं! इसी प्रकार से वार्ड 26 में भी जीवीपी पॉइंट से कचरा नहीं उठने पर फाइन की अनुशंसा किया गया है!



नगर पालिक निगम भिलाई



## 21 व्यवसायियों पर कार्यवाही की गई

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम, भिलाई उड़नदस्ता टीम ने जोन क्षेत्र अंतर्गत होटल, रेस्टोरेंट, किराना दुकान, बाजार, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग रखने वालों पर कार्यवाही की। जिसमें 02 व्यवसायियों द्वारा अपने दुकान पर घरेलु गैस सेलेण्डर का उपयोग करते हुए पाये जाने पर कार्यवाही की गई उसी प्रकार अन्य जगहों पर बचे हुए बासी खाद्य पदार्थ, नालियों पर कचरा, सफाई व्यवस्था, लायसेंस आदि की जायजा लिया गया तथा ऐसे प्रतिष्ठान जो बिना लायसेंस के चलाये जा रहे थे उससे दण्डिक शुल्क वसूलकर निगम कोष में जमा कराया गया साथ ही चेतावनी दी गई की बिना लायसेंस संचालन करने पर नगर निगम अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकती है। निगम की उड़नदस्ता टीम द्वारा राधेलाल चाय नास्ता, शर्मा फर्नीचर, गुरुकृपा फर्नीचर, रुद्रांस फर्नीचर, नंदू किराना स्टोर्स, शंभूनाथ यादव भैंस खटाल, गरीबा ट्रेडर्स, चाय नास्ता सेन्टर, अन्य कुल 21 व्यवसायियों पर कार्यवाही की गई जिससे 13 हजार रुपये अर्थदण्ड लिया गया। उड़नदस्ता की टीम सम्पूर्ण निगम क्षेत्र में सड़क पर कचरा फैलाने वाले तथा सड़क पर सामान रखकर यातायात बाधित, लायसेंस नहीं रखने वालों के खिलाफ लगातार कार्यवाही कर रही है। आयुक्त ने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों से अपील की है कि गंदगी न फैलायें, यातायात प्रभावित न करें एवं सभी प्रतिष्ठान लायसेंस अपने दुकान पर ही रखें ताकि आप पर होने वाले कार्यवाही से बचा जा सके।



नगर पालिक निगम भिलाई



## निगम सभागार में तृतीय लिंग की कार्यशाला आयोजित हुई

भिलाईनगर/तृतीय लिंग समुदाय के लोगो के प्रति व्याप्त भेदभाव को समाप्त करने एवं इस वर्ग के अधिकारों के विभिन्न मुद्दों तथा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में तृतीय लिंग समुदाय को शामिल करने एवं शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने हेतु 19 नवंबर 2019 को अपरान्ह 05 बजे नगर पालिक निगम, भिलाई मुख्यालय के सभागार में आयुक्त महोदय के अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड के सदस्य कंचन शेन्डेव, एवं विद्या राजपुत मेम्बर ऑफ थर्ड जेन्डर वेलफेयर बोर्ड छ.ग. शासन के द्वारा तृतीय लिंग समुदाय के अधिकारों, समाज में व्याप्त भेदभाव एवं अन्य समस्याओं के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए नगर पालिक निगम भिलाई से प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत तृतीय लिंग समुदाय के लोगों को आवास, अलग से सुलभ-शौचालय की व्यवस्था या बने सुभल-शौचालय में अलग कक्ष की व्यवस्था, डे-एनयूएलएम के अन्तर्गत सामुदायिक संगठक के पद पर नियुक्ति, स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत "डोर टू डोर" कचरा कलेक्शन के कार्यों में सम्मिलित करने की मांग की गई है। योजनाओं का लाभांशित करने पर बल दिया गया। कार्यक्रम को संचालन कर रहे उपायुक्त श्री टी.पी. लहरे द्वारा निगम में संचालित योजनाओं में उनकी भागीदारी हेतु आश्वासन दिया गया। तृतीय लिंग समुदाय को शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने तथा जागरूकता की दृष्टिकोण एवं प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नगर पालिक निगम भिलाई के तत्वावधन में सम्मेलन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम दिनांक 12.01.2017 को आयोजित किया गया था।



नगर पालिक निगम भिलाई



## थर्माकोल की बोरियों को सड़क पर फेंकना पड़ा महंगा, देना पड़ा 5000 जुर्माना, उड़नदस्ता की टीम ने की कार्यवाही

भिलाईनगर/ सुभाष चौक काशी थर्माकोल के व्यवसायी द्वारा गुपचुप तरीके से लगभग 25 से 30 थर्माकोल की बोरियों को अलग-अलग क्षेत्रों में फेंककर गंदगी फैलाई जा रही थी, सफाई कर्मचारियों के द्वारा देख लिए जाने पर व्यापारी के कर्मचारी वहां से नदारद हो गए जिनके दुकान का पता लगाकर उड़नदस्ता की टीम मौके पर पहुंच गई तथा गंदगी फैलाने पर ₹5000 अर्थदंड वसूली की कार्यवाही की तथा समझाइश दी गई कि नगर निगम की उड़नदस्ता टीम ने आज वार्ड क्रमांक 03, 05, 06, 13 तथा 19 के अंतर्गत आने वाले व्यवसायियों से जो कि अनुज्ञप्ति लायसेंस नहीं होने, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग विक्रय करने, एक्सपायरी पेय एवं खाद्य पदार्थ आदि पर कार्यवाही करते हुए कुल 17000 हजार अर्थदण्ड वसूल कर समझाइश दिए। नगर पालिक निगम, भिलाई की उड़नदस्ता टीम ने वार्ड क्रमांक 03, वार्ड 05, वार्ड 06, वार्ड 13 व वार्ड 19 के अंतर्गत आने वाले होटल, रेस्टोरेंट, किराना दुकान, बाजार, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग रखने वालों पर कार्यवाही की। बचे हुए बासी खाद्य पदार्थ, नालियों पर कचरा डालने वाले, सफाई व्यवस्था एवं लायसेंस आदि का जायजा लिया गया तथा 11 व्यवसायियों से 17000 हजार रुपये का दण्डिक शुल्क वसूलकर निगम कोष में जमा कराया गया साथ ही समझाइस दी गई की बिना लायसेंस संचालन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नगर पालिक अधिनियम के तहत सख्त कार्यवाही की जा सकती है।



नगर पालिक निगम भिलाई



## बायो मेडिकल वेस्ट को फेंककर फैलाई गंदगी, भरना पड़ा 15000 जुर्माना, उड़नदस्ता की टीम ने की कार्यवाही

भिलाईनगर/ लक्ष्मी मार्केट वार्ड क्रमांक 5 के समीप एक निजी अस्पताल के द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट (जैव चिकित्सा अपशिष्ट) को बेतरतीब ढंग से फेंक दिया गया था तथा कुछ वेस्ट को सफाई कर्मचारी के रिक्शे में भी डाल दिया गया जिसकी जानकारी प्राप्त होने पर उड़नदस्ता की टीम मौके पर पहुंच गई तथा बड़ी मात्रा में डाले गए बायो मेडिकल वेस्ट प्राप्त होने पर संबंधित अस्पताल के संचालक को समझाव देते हुए 15000 रुपए का जुर्माना लगाया गया! इसी तरह चंद्रा मौर्य चौक के समीप स्थित होटल में गंदगी फैलाई जाने पर ₹5000 का जुर्माना वसूल किया गया! वार्ड क्रमांक 18 वृंदा नगर विनोद फर्नीचर के संचालक द्वारा कचरा फैलाए जाने पर ₹1000 का शुल्क वसूल किया गया! नगर निगम की उड़नदस्ता की टीम ने आज वार्ड क्रमांक 05 वार्ड 18 एवं वार्ड 12 सहित निगम के अन्य स्थलों पर गंदगी फैलाए जाने, अनुज्ञप्ति लाइसेंस नहीं रखने, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग का विक्रय करने, सड़क बाधा करने, एक्सपायरी पेय एवं खाद्य पदार्थ का विक्रय करने आदि को लेकर निरीक्षण करते हुए कार्यवाही की तथा से 3 व्यवसायियों से ₹21000 का अर्थदंड शुल्क वसूल कर निगम कोष में जमा कराया गया! निगम की उड़नदस्ता की टीम लगातार गंदगी फैलाने वालों पर कार्यवाही कर रही है इसी के साथ ही मलबा सड़क पर रखकर सड़क बाधा करने वालों को भी समझाव देते हुए कार्यवाही की जा रही



नगर पालिक निगम भिलाई



## सफाई व्यवस्था को लेकर आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी एवं सूडा के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया निरीक्षण

भिलाईनगर/ निगमायुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने आज प्रातः से रेलवे स्टेशन एवं ऐसे क्षेत्र जहां पर खुले में शौच करने की गुंजाइश हो सकती है ऐसे क्षेत्रों का निरीक्षण निगम के अधिकारियों के साथ किया! आयुक्त श्री रघुवंशी एवं सूडा के अधिकारी आर के नारंग वार्ड क्रमांक 23 पावर हाउस के समीप सुभाष मार्केट पहुंचे जहां पर उन्होंने पूरे बाजार क्षेत्र का निरीक्षण किया इस दौरान कुछ स्थानों पर ऑटो प्वाइंट में कचरा एकत्र होना पाया गया जिसे हटवाने के निर्देश दिए गए!! उन्होंने सूखा कचरा को अलग करने एवं गीला कचरा से खाद तैयार करने की प्रक्रिया की जानकारी ली तथा समीप स्थित स्थल में कचरा पृथक करने के लिए और बेहतर व्यवस्था बनाने के निर्देश जोन आयुक्त एवं उपस्थित अधिकारियों को दिए !निरीक्षण के दौरान सूडा के अधिकारी आरके नारंग, अधीक्षण अभियंता आरके साहू, उपायुक्त टीपी लहरें, जोन आयुक्त जोन क्रमांक 3 प्रीति सिंह, कार्यपालन अभियंता जोन क्रमांक 3 डीके वर्मा, प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा एवं जोन क्रमांक 3 के स्वास्थ्य अमला सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारी मौजूद रहे!



### Editorial Board

श्री ऋतुराज रघुवंशी  
आयुक्त

आई.ए.एस.

नगर पालिक निगम  
भिलाई

### Contact & Address

श्री पी.सी सारवा  
जनसंपर्क अधिकारी  
नगर पालिक निगम  
भिलाई



नगर पालिक निगम भिलाई

